

सं.फा.7/47/2014-ले.क्र.

भारत सरकार
संसदीय कार्य मंत्रालय

94, संसद भवन, नई दिल्ली-110001
(टेलीफोन: 23034755 और 23034899)

तारीख: 23 जुलाई, 2018

ई-नीलामी सूचना

इस मंत्रालय से संबंधित अनुपयोगी मर्दों जैसे फोटोकॉपी मशीन, कंप्यूटर, लोहे की अलमारियां और फर्नीचर आदि की शुक्रवार, 3 अगस्त, 2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री की जाएगी। बेचे जाने वाले सामान की जांच उपरोक्त फोन नंबरों पर संपर्क करने के पश्चात 1 या 2 अगस्त, 2018 को अपराह्न 2.30 बजे से अपराह्न 4.30 तक की जा सकती है। व भन्न वस्तुएं संसदीय कार्य मंत्रालय के ववेकानुसार समूह में नीलाम की जाएंगी। नीलाम की जाने वाली मर्दों का ववरण दर्शाने वाली सूची मंत्रालय की वेबसाइट (<https://mpa.gov.in>) और सीपीपी पोर्टल पर उपलब्ध है। कंप्यूटरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स मर्दों की नीलामी केवल पुनः वक्रय/पुनः प्रयोग के लए की जाएगी।

शर्तें: वस्तुओं की नीलामी 'जैसा है जहां है' के आधार पर की जाएगी और उन्हें उच्चतर बोलीदाता द्वारा उठाया जाएगा। नीलामी शुरू होने से पहले प्रत्येक बोलीदाता के लए मैसर्स एक्यूरेट ऑक्शनीयर्स के नाम नई दिल्ली में देय डी.डी./एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के रूप में ₹.20,000/- की प्रतिभूति जमा करनी अपेक्षित है। उच्चतम बोली की स्वीकृति संसदीय कार्य मंत्रालय के सक्षम प्राधकारी के अनुमोदन के अधीन होगी। उच्चतम बोली का भुगतान 5 कार्यदिवसों के भीतर कया जाएगा और नीलाम सामग्री को उच्चतम बोली प्रस्तुत करने की तारीख से 3 दिनों के भीतर हटाया जाएगा।

मैसर्स एक्यूरेट ऑक्शनीयर्स ऑनलाइन बोली प्रक्रया के लए संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से समन्वयकर्ता होगा और www.accurateauctioneers.in पर ऑनलाइन बोली प्रक्रया में सहायता करने के लए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा।

सरकारी नीलामीकर्ता: एक्यूरेट ऑक्शनीयर्स। फोन: 9868215515, 8076863359,
वेबसाइट: www.accurateauctioneers.in

यदि संसदीय कार्य मंत्रालय के वचार से उच्चतम बोलीदाता का प्रस्ताव उचित नहीं है तो मंत्रालय के पास प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताए, अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा। नीलामी में संसदीय कार्य मंत्रालय के कर्मचारी भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।

(मुकेश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

प्रति ल प:-

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/ वभाग।
2. लोक सभा/राज्य सभा स चवालय।
3. मैसर्स एक्यूरेट ऑक्शनीयर्स, सरकारी ऑक्शनीयर्स और वेल्यूअर्स, फ्लैट नं.5, गीता अपार्टमेंट्स, बीएल-17, गीता कालोनी, दिल्ली-110031 (व्यापक प्रचार हेतु 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
4. संसदीय कार्य मंत्रालय का नोटिस बोर्ड।

संसदीय कार्य मंत्रालय

3 अगस्त, 2018 को निलामी की जाने वाली मदों की सूची

क्र.सं.	वस्तु का नाम	मात्रा
1	हॉट केस	6
2	फोटोकॉपी मशीन	7
3	सी.पी.यू.	13
4	मॉनीटर (बड़ा साइज - सीआरटी)	9
5	मॉनीटर एल.इ.डी.	3
6	पेपर श्रेडर	3
7	यू.पी.एस.	22
8	प्रिंटर	11
9	टेली वजन 21 इंच	4
10	टी.वी. ट्रॉली	4
11	टेली वजन 29 इंच	2
12	फैक्स मशीन	5
13	स्टैबलाइजर	2
14	ब्लोअर	1
15	पीसी स्पीकर सेट	3
16	स्टील ट्रंक	1
17	टायर (कार)	5
18	टायर (ऑटो)	6
19	ई.पी.ए.बी.एक्स. टेलीफोन सस्टम	3
20	आर.ओ.	1
21	एन.ई.सी. ई.पी.ए.बी.एक्स. सस्टम	1
22	स्टील अलमारी	3
23	लकड़ी की ट्राली	4